

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247609
SG-DL-E-26072023-247609असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 166
No. 235]	DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945	[N. C. T. D. No. 166

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि और भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

फा.सं.5(95)/2022/भूमि एवं भवन/प्रशा./भर्ती नियम/3040.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को भूमि एवं भवन विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भर्ती नियमावली-2023 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

भूमि एवं भवन विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ
2.	पदों की संख्या	:	*35 (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-‘ग’, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीपः — आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी द्वारा पदों की भर्ती की जानी है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः — किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा	:	सीधी भर्ती द्वारा

	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (सेवाएं) – सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
अजय कुमार गंभीर, उप-सचिव (प्रशा.)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2023

F. No. 5(95)/2022/L&B/ADMN/RRs/3040.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of "Multi Tasking Staff (MTS)" in the Department of Land & Building Department, Govt. of NCT of Delhi, namely:-

- Short title and commencement** – (i) These rules may be called the 'Land & Building Department, **Multi Tasking Staff (MTS)** Recruitment Rules-2023.
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of Posts, Classification and level in the Pay Matrix** - The number of post, its classification and level in the Pay Matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed with these rules.
- Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc.** –The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** - No person –
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** – Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF (MTS) IN LAND AND BUILDING DEPARTMENT

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff	35 * (2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-I (Rs. 18000-56900 /-) of the Pay Matrix	Not Applicable	Between 18-25* Years (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The Crucial date for determining the age-limit shall be advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all- India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	Essential: Matriculation or equivalent pass from Recognised Board/ Institute

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation. If any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
8	9	10
Not Applicable	Two Years	By Direct Recruitment

In case of recruitment by Promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not Applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Pr. Secretary/ Secretary (Labour)- Chairperson 2. Head Of Department Concerned - Member 3. Dy. Secretary (Services) - Member	Not Applicable

	Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

By Order and in the Lt. Governor
Name of the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GAMBHIR, Dy. Secy. (Admn.)